

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 887]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024 — पौष 6, शक 1946

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 के नियम 27 (2) एवं प्रारूप- 26 के अनुसार)

क्र.10502/5(1)/नि. प्र / 2023.— एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्र. 23 सन 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बरौदा, रमचंडी, रीको और मंदिर हसौद तहसील आरंग एवं ग्राम सेरीखेड़ी और नकटी तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 436.0152 हे. क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरिक्षण के लिए उपलब्ध है -

- (1) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर
- (3) जिला कलेक्टर, जिला रायपुर

उसकी प्रति नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <https://navaraipuratalnagar.com> पर भी उपलब्ध कराई गई है।

यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ग्राम बरौदा, रमचंडी, रीको और मंदिर हसौद तहसील आरंग एवं ग्राम सेरीखेड़ी और नकटी तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 463.5986 हे. क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना तैयार करने के आशय की घोषणा संबंधित पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2063 5 (1)/नि.प्र/2023 दिनांक 14 मार्च 2023 और धारा 50 की उप-धारा क के अंतर्गत उक्त नगर विकास योजना के कुछ क्षेत्रों को विमुक्त कर,

योजना के संशोधित क्षेत्र 436.0152 हे. को अधिसूचित करने के लिए अनुवर्ती अधिसूचना क्रमांक 10478 5 (1) / नि.प्र / 2023 दिनांक 24 दिसंबर 2024 के अनुक्रम में है ।

इस अधिसूचना में यहां प्रकाशित अंतिम भूखंडों की सूची को भू-स्वामित्व या भू-अभिलेखों के सत्यापन के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग के अद्यतन भू-अभिलेखों के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) की धारा 50 की उप-धारा (8) के अधीन योजना को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम भूखंडों का आवंटन और उसके बाद अंतिम भूखंड का कब्जा, भूस्वामी के अद्यतन और प्रमाणित भू-स्वामित्व अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा ।

हस्ता./—

(सौरभ कुमार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण